

## World Water Day विश्व जल दिवस

22 March 2021

विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। यह पीने योग्य मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है।

विश्व जल दिवस का एक मुख्य उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता के लक्ष्य को बढ़ावा देना है।

### पानी का महत्व:

#### A. जल अपव्यय को रोकना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना

- दुनिया में 220 करोड़ लोग (UN) और भारत में कुल आबादी 50% लोग सुरक्षित पानी के बिना रहते हैं
- दुनिया की बढ़ती आबादी और कृषि तथा उद्योगों के लिए पानी की बढ़ती जरूरत के कारण भविष्य में पानी की किल्लत एक बड़ा संकट बनने वाली है
- अभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पानी बर्बाद करना बंद करें और संरक्षण शुरू करें

#### कुछ आसान तरीके:

>> नल खुला ना छोड़ें >> खराब नल ठीक करवाये >> बागवानी के लिए पाइप के बजाय कनस्तर का उपयोग करें >> नहाते, शेविंग करते व ब्रुश करते समय नल खुला न छोड़ें



## B. सुरक्षित पानी और स्वच्छता:

सुरक्षित पेय जल प्रदूषित पानी से फैलने वाले रोग जैसे पीलिया, डायरिया, टाइफाइड, हैजा इत्यादि से बचाता है। हमारी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भी पानी आवश्यक है।

### सुरक्षित पेय जल

- नल से सीधे पानी न पिएं
- 10 मिनट के लिए नल के पानी को अच्छी तरह उबालें और एक ढंके और साफ बर्तन में रखें
- फिल्टर का उपयोग भी कर सकते हैं



### प्रदूषित पानी से फैलने वाले रोगों की रोकथाम

- खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं
- हाथ धोने से COVID-19 को रोकने में भी मदद मिलेगी

*पानी से तो संसार है*

*जल ही जीवन है*

*जल हैं तो कल है ।*

